



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28] नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 11—जुलाई 17, 2009 (आषाढ़ 20, 1931)

No. 28] NEW DELHI, SATURDAY, JULY 11—JULY 17, 2009 (ASADHA 20, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 2

[PART I—SECTION 2]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधानमंत्री कार्यालय

नई दिल्ली-110101, दिनांक 20 जून 2009

सं. ए-22017/1/2004/पीएमए(स्था.)--श्री आशीष कुमार सिंह, आई.ए.एस. (महाराष्ट्र : 88) की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति का कार्यकाल पूरा होने के फलस्वरूप उन्होंने दिनांक 20 जून, 2009 के अपराह्न से राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) के निजी सचिव का पदभार छोड़ दिया है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 22 जून 2009

सं. ए-22017/4/2004/पीएमए(स्था.)--दिनांक 22 मई, 2009 को श्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के रूप में अपने पद से त्याग-पत्र दिए जाने के परिणामस्वरूप, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव श्री अनिलकुमार विनायक पाटिल, जो वर्तमान में राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री कार्यालय) के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में कार्यरत

हैं, ने दिनांक 22 जून, 2009 (पूर्वाह्न) से अपने पद का कार्यभार छोड़ दिया है।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

दिनांक 25 जून 2009

सं. ए-27017/1/2009/पीएमए(स्था.)--राष्ट्रपति, डॉ. हरीश खरे को दिनांक 24 जून, 2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश होने तक प्रधानमंत्री कार्यालय में भारत सरकार के सचिव के रैंक, वेतन एवं स्तर पर प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार के रूप में नियुक्त करते हैं।

के. सलिल कुमार, अवर सचिव

राज्य सभा सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

सं. आरएस./6/3/2009/31-कार्मिक--निम्नलिखित व्यक्ति राज्य सभा सचिवालय में राज्य सभा में विपक्ष के नेता के वैयक्तिक स्टाफ में

13 जून, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक नियुक्त किए गए हैं:—

- (i) श्री सुरेन्द्र दत्त रानाकोटी वरिष्ठ निजी सचिव के रूप में 15,600—39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 में + 6,600/- रुपये का ग्रेड वेतन; और
- (ii) सर्व श्री सुरेन्द्र प्रसाद देवरानी और पद्म सिंह निजी सचिव के रूप में 15,600—39,100/- रुपये के वेतन बैंड-3 में + 5,400/- रुपये का ग्रेड वेतन।

2. उपर्युक्त नियुक्तियां राज्य सभा में वर्तमान विपक्ष के नेता (श्री अरुण जेटली) के विवेकाधीन हैं और उनके कार्यकाल के साथ समाप्त हो जाएंगी।

सी. बी. राय, निदेशक

योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 5 जून 2009

सं. ए-43011/23/2004-प्रशासन-1--मंत्रीमंडल सचिवालय के दिनांक 05.06.2009 के आई.डी. नोट सं. ए-12031/1/04-एडी.1 का अनुपालन करते हुए योजना आयोग का निम्नवत पुनर्गठन किया जाता है:—

क्र.सं.	नाम	पदनाम
1.	डॉ. मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री	अध्यक्ष
2.	श्री मोन्टेक सिंह अहलुवालिया	उपाध्यक्ष
3.	श्री बी. के. चतुर्वेदी	सदस्य
4.	डॉ. सौमित्र चौधरी	सदस्य
5.	डॉ. (सुश्री) सईदा हमीद	सदस्य
6.	डॉ. नरेन्द्र जाधव	सदस्य
7.	प्रोफेसर अभिजीत सेन	सदस्य
8.	डॉ. मिहित शाह	सदस्य

सुवास पाणि, सचिव

दिनांक 18 जून 2009

सं. ए-43011/23/2004-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 5 जून, 2009 के समसंख्यक अधिसूचना के अनुक्रम में तथा मंत्रीमंडल सचिवालय के दिनांक 12 जून, 2009 के आई.डी. नोट संख्या ए-12031/1/04-एडी.1 के अनुपालन में, निम्नलिखित केन्द्रीय मंत्री भी योजना आयोग के सदस्य होंगे:—

1. श्री प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री
2. श्री शरद पवार, कृषि मंत्री और उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्री
3. श्री पी. चिदम्बरम, गृह मंत्री
4. कृ. ममता बनर्जी, रेल मंत्री
5. श्री गुलाम नबी आजाद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री
6. श्री कमल नाथ, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री

7. श्री दयानिधि मारन, कपड़ा मंत्री

8. श्री कपिल सिब्बल, मानव संसाधन विकास मंत्री

9. श्री बी. नारायणसामी, योजना और संसदीय कार्य राज्य मंत्री

सुवास पाणि, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 जून 2009

सं. एफ. 6(2088)/2009-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 05.06.2009 के अधिसूचना सं. ए-43011/23/2004-प्रशासन-1 का अनुपालन करते हुए, डॉ. सौमित्र चौधरी ने दिनांक 08.06.2009 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सदस्य का कार्यभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. एफ. 6(2020)/2007-प्रशासन-1 (खण्ड-2)--योजना आयोग के दिनांक 05.06.2009 के अधिसूचना सं. ए-43011/23/2004-प्रशासन-1 का अनुपालन करते हुए, श्री बी. के. चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त आई.ए.एस. ने दिनांक 06.06.2009 (पूर्वाह्न) से योजना आयोग में सदस्य का कार्यभार संभाल लिया है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

सं. ए-43011/23/2004-प्रशासन-1--योजना आयोग के दिनांक 05.06.2009 के समसंख्यक अधिसूचना के तहत योजना आयोग का पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, दिनांक 5 जून, 2006 के अपराह्न से निम्नलिखित योजना आयोग के सदस्य नहीं हैं:—

1. डॉ. किरीट एस. पारिख
2. डॉ. व्ही. एल. चोपड़ा
3. डॉ. भालचन्द्र मुणगेकर
4. श्री बी. एन. युगन्धर
5. श्री अनवरुल हुदा

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

दिनांक 23 जून 2009

सं. ए-44011/5/2009-प्रशासन-1--आर्थिक कार्य विभाग के मिसिल सं. 13016/2/2009-आई.ई.एस. के तहत दिनांक 05.06.2009 के आदेश सं. पी-3/2009 का अनुपालन करते हुए योजना आयोग में निदेशक के पदों पर कार्यरत भारतीय आर्थिक सेवा के निम्नलिखित एन.एफ.एस.जी. अधिकारियों को रु. 18,400—22,400/- वेतनमान (संशोधन पूर्व) (संशोधन के बाद वेतन बैंड-4 : रु. 37,400—67,000/- + रु. 10,000/-) में सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस.ए.जी.) में, मंत्रीमंडल नियुक्ति समिति का दिनांक 21.08.2008 का निर्णय और उसके बाद के दिनांक 10.09.2008 के राजपत्र अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 648(ई) के तहत एसएजी में

उन्नयन की गई पदों पर, उनके नामों के सामने दर्शाई गई तिथि से पदोन्नत किया जाता है:—

क्र. सं.	निदेशक के नाम	पदोन्नति की तिथि
1.	श्री बद्री सिंह भण्डारी	05.06.2009 (पूर्वाह)
2.	श्री अर्विन्दर सिंह सचदेवा	05.06.2009 (पूर्वाह)
3.	श्री सुरिन्दर सिंह	05.06.2009 (पूर्वाह)
4.	श्री सतपाल चौहान	05.06.2009 (पूर्वाह)
5.	श्रीमती सुनिता संधी	05.06.2009 (पूर्वाह)
6.	श्रीमती सुमन कौशिक	10.06.2009 (पूर्वाह)

2. पदोन्नत अधिकारियों के सेवा निवृत्त होने पर अथवा मंजूर की गई एस.ए.जी. स्तर पर मंजूर पदों पर उक्त अधिकारियों की पदोन्नति हो जाने पर उक्त उन्नयन किए गए पद एन.एफ.एस.जी. स्तर पर वापस चली जाएंगी।

3. एस.ए.जी. में उनकी पदोन्नति के परिणामस्वरूप उन्हें योजना आयोग में सलाहकार का पदनाम दिया जाता है।

एस. केशवा अय्यर, अवर सचिव

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

सं. ए-12023/21/2006-प्रशा.-III (वि.का.)--आयकर अपील अधिकरण सदस्य (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1963 के नियम 11 में विनिर्दिष्ट अधिवर्षिता की आयु होने पर, आयकर अपील अधिकरण के न्यायिक सदस्य डॉ. ओ. पी. शुक्ला दिनांक 6 जून, 2009 (06.06.2009) के अपराह्न को सेवानिवृत्त हो गए हैं।

एम. ए. खॉँ युसूफी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

सं. ए-31013/1/2008-प्रशा.-III (वि.का.)--कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.03.1988 के का.ज्ञा.सं. 18011/1/86-एस्टे.(डी) में निहित अनुदेशों के अनुसरण में और सक्षम प्राधिकारी के आदेशानुसार, आयकर अपील अधिकरण के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तारीख से उसी ग्रेड में स्थायी रूप से नियुक्त किया जाता है:—

क्र. सं.	सदस्य का नाम और पदनाम	आयकर अपील अधिकरण में सदस्य के तौर पर स्थायी नियुक्ति की तारीख
1	2.	3
	सर्वश्री	
1.	सुश्री सुषमा चावला, न्यायिक सदस्य	28.02.2007
2.	श्रीमती पी. माधवी देवी, न्यायिक सदस्य	28.02.2007

1	2	3
	सर्वश्री	
3.	कृष्ण गोपाल बंसल, लेखा सदस्य	28.02.2007
4.	डी. सी. अग्रवाल, लेखा सदस्य	28.02.2007
5.	रियाज अब्दुल सत्तार पाडवेकर, न्यायिक सदस्य	28.02.2007
6.	रमाकांत पांडा, लेखा सदस्य	28.02.2007
7.	राजेन्द्र सिंह, लेखा सदस्य	02.03.2007
8.	एन. एल. कालरा, लेखा सदस्य	28.02.2007
9.	वीरेंद्र कुमार गुप्ता, लेखा सदस्य	28.02.2007
10.	केशव देव रंजन, लेखा सदस्य	28.02.2007
11.	शमीम याहया, लेखा सदस्य	10.03.2007

एम. ए. खॉँ युसूफी, संयुक्त सचिव और विधि सलाहकार

न्याय विभाग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 08 जून 2009

सं. के-13026/4/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्रीमती अर्जुन प्रकाश, और (ii) श्री ज्योति सरन को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना-अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए पटना उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

दिनांक 19 जून 2009

सं. के-13029/1/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री सोनाम फिन्छो वाडदी को उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से सिक्किम उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

सं. के-13015/1/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, (i) श्री श्यामल कान्ति चक्रवर्ती, (ii) मो. अब्दुल गनि, (iii) श्री रघुनाथ राय, (iv) श्री मृणाल कान्ति सिन्हा, तथा (v) श्री प्रभात कुमार डे को उसी वरीयता क्रम में, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से कलकत्ता उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 जून 2009

सं. के-13027/7/2008-यू.एस.-II--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश, न्यायविद श्री कंवसजीत सिंह आहलुवालीया को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

दिनांक 24 जून 2009

सं. के-13021/2/2008-यू.एस.-I--राष्ट्रपति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 224 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री अरविंद कुमार को, उस तारीख, जब वे अपना कार्यभार ग्रहण करेंगे, से दो वर्ष की अवधि के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपर न्यायाधीश सहर्ष नियुक्त करते हैं।

एस. के. श्रीवास्तव, उप सचिव

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 24 जून 2009

सं. I-18011/8/2009-आईपीएस-IV--राष्ट्रपति, भारतीय पुलिस सेवा (परिवीक्षा) नियम, 1954 के नियम 3-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय पुलिस सेवा के कर्नाटक संवर्ग के निम्नलिखित सदस्यों को उनके नामों के सामने दर्शाई गई तारीखों से भारतीय पुलिस सेवा में स्थायी करते हैं:--

क्र. सं.	भारतीय पुलिस सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारी का नाम	स्थायी किए जाने की तारीख
1.	श्री पवार प्रवीण मधुकर, आईपीएस (कर्नाटक : 2003)	01.09.2005
2.	श्री त्रिलोक चन्द्र के. वी., आईपीएस (कर्नाटक : 2003)	22.12.2005
3.	श्री एन. सतीश कुमार, आईपीएस (कर्नाटक : 2003)	22.12.2005
4.	श्री संदीप पाटील, आईपीएस (कर्नाटक : 2004)	06.09.2006
5.	श्री विकास कुमार विकास, आईपीएस (कर्नाटक : 2004)	06.09.2006

राजेन्द्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (आईपीएस-IV)

अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

सं. ए-19011/4/2009-अं.रा.प.--राष्ट्रपति, श्रीमती प्रमिला राघवेन्द्रन को अंतर्राज्य परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय में उप सचिव (केन्द्रीय सचिवालय सेवा) के रूप में दिनांक 5 अप्रैल, 2009 के अपराह से सहर्ष नियुक्त करती हैं।

महारुद्र सिंह, अवर सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली-110067, दिनांक 29 जून 2009

सं. 13019/1/2009-अकादमी(डिस्क)--राष्ट्रपति, श्रीमती जसप्रीत तलवार, भा.प्र.से. (पीबी : 95) को दिनांक 24.04.2009 (पूर्वाह्न) से लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, मसूरी में पीबी-3 15,600--39,100/- रु. + ग्रेड पे 7,600/- रु. में चार वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए उप सचिव (उप सचिव स्तर) के रूप में नियुक्त करते हैं।

संदीप मुखर्जी, अवर सचिव

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 मार्च 2009

सं. 11/पीए-II/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा के 2004-05 बैच के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से भारतीय विदेश सेवा में नियमित करते हैं:--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	बैच	वर्तमान नियुक्ति	नियमितीकरण की तारीख
1.	श्री अरिन्दम भट्टाचार्य	2004	मुख्यालय	01 मई, 2008
2.	श्रीमती सूजा के. मेनन	2005	पोर्ट लुइस	23 अक्टूबर, 2008
3.	श्री गौरव अहलुवालिया	2005	ब्रूसेल्स	23 अक्टूबर, 2008
4.	श्रीमती अजुनगला जामीर	2005	क्वालालंपुर	24 अक्टूबर, 2008
5.	डॉ. अमित एस. तैलंग	2005	बर्लिन	23 अक्टूबर, 2008

2. भारतीय विदेश सेवा में उनके नियमितीकरण के परिणामस्वरूप, अधिकारियों को उनके वर्तमान नियुक्ति में उनके नाम के आगे उल्लिखित तारीख से सेवा के कनिष्ठ वेतनमान में अवर सचिव के रूप में पदोन्नत किया जाता है।

3. यह हमारे दिनांक 18 मार्च, 2009 के अधिसूचना सं. 09/पीए-II/2009 के अतिरिक्त में है।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

दिनांक 19 मार्च 2009

सं. 10/पीए-II/2009--राष्ट्रपति, भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के सामान्य संवर्ग में एकीकृत ग्रेड-II और III के निम्नलिखित अधिकारी को उनके नाम के समक्ष दी गई तारीख से भारतीय विदेश सेवा (ख), के ग्रेड-II में नियुक्त करते हैं :-

नाम	पदोन्नति की तारीख
श्री ब्रजभाषी सरकार	01.03.2009

2. उपर्युक्त नियुक्ति न्यायालय के ऐसे किसी भी निर्णय के अध्वधीन होगी, जिसका इस पदोन्नति पर कोई प्रभाव पड़ सकता है।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

दिनांक 18 जून 2009

सं. क्यू/जीए/579/3/2008--भारत सरकार ने निम्नलिखित मिशन खोला है :-

केन्द्र का नाम	खोलने की तारीख/महीना/वर्ष
भारत का राजदूतावास, बर्माको (माली)	06 मई, 2009

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों से अनुरोध है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उपरोक्त मिशन/केन्द्र से संबंधित पत्राचार "मार्फत राजनयिक थैला अनुभाग, विदेश मंत्रालय, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली" को संबोधित किया जाए।

आर. गौरव श्रेष्ठ, उप सचिव

कार्यालय: प्रोटोकॉल उप प्रमुख (एफ)

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2009

सं. डी-III/460/सी एफ-53/2008--भारत की राष्ट्रपति ने कु. नयनतारा पालचौधरी की कोलकाता में नवें के मानद कौंसल के रूप में नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से मान्यता दे दी है।

कु. नयनतारा पालचौधरी के कौंसली क्षेत्राधिकार में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड और बिहार राज्य होंगे।

एच. आर. सिंह, प्रोटोकॉल उप-प्रमुख (एफ)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2009

सं. ए. 12011/1/2009-प्रशा.2--राष्ट्रपति, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (सीएसएसएस) के स्टेनो ग्रेड 'ग' श्री एम. पी. कोटनाला को 9,300--34,800/- रु. + 4,800/- रु. (ग्रेड वेतन) के वेतन बैंड-2 में 01 जुन, 2009 के पूर्वाह्न से वित्त राज्यमंत्री (व्यय और वित्तीय सेवाएं) (श्री नमो नारायण मीणा) के सहायक निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. श्री एम. पी. कोटनाला की नियुक्ति जब तक कि अन्यथा पहले न समाप्त कर दी जाए, श्री नमो नारायण मीणा, वित्त राज्यमंत्री (व्यय एवं वित्तीय सेवाएं) के कार्यकाल के सह-विस्तारी आधार पर होगी।

वी. रामकुमार, उप सचिव

वित्तीय सेवाएं विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 24 जून 2009

सं. ए-19011/237/2004-स्थापना--राष्ट्रपति, श्री अमिताभ वर्मा, आईएस (बिहार : 82), संयुक्त सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय की केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति अवधि को दिनांक 18.06.2009 के पश्चात् आगे तीन माह अर्थात् दिनांक 18.09.2009 तक बढ़ाते हैं।

रमण कुमार गौड़, अवर सचिव

व्यय विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2009

सं. ए-12026/3/2009-प्रशा.1--राष्ट्रपति, संयुक्त सीमित विभागीय परीक्षा, 2005 के परिणामों के आधार पर दूरसंचार विभाग में सहायक, श्री पंकज सौरभ को वेतन बैंड पी.बी.-3 [9,300--34,800/- रुपए + 4,800/- रुपए (ग्रेड वेतन)]/15,600--39,100/- रुपए + 5,400/- रुपए (ग्रेड वेतन)] में 16 जून, 2009 के पूर्वाह्न से तथा अगले आदेशों तक वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

2. श्री पंकज सौरभ की अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में नियुक्ति माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिका सं. (सी) 13245-60/2005 (श्री कैलाश चन्द्र विरूद्ध भारत का संघ) तथा माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, दिल्ली में लंबित ओ.ए. सं. 1083/2007 एवं एम.ए. सं. 1171/2007 (श्री सौरांशु सिन्हा विरूद्ध भारत का संघ) के अधिनिर्णयों के अधीन है। अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में उनकी वरिष्ठता रिट याचिका (सी) सं. 4876/2007 (केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक एसोसिएशन विरूद्ध केन्द्रीय सचिवालय सेवा सीधी भर्ती सहायक एसोसिएशन) के अंतिम अधिनिर्णय के अधीन होगी।

मीताली घोष, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2009

सं. फा. 16/495/सीएसी/-2009--अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप वेतन बैंड-2 में रुपये 9,300--34,800/- के साथ ग्रेड वेतन रुपये 4,800/- के वेतनमान में कार्यरत केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के निजी सचिव, श्री आर. आर. एस. रावत, दिनांक 30.06.2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवा-निवृत्त हो गए हैं।

एम. के. साहू, उप निदेशक (लागत)

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 16 जून 2009

सं. ए-12011/11/2006-स्था.--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 16 मार्च, 2009 के का. ज्ञा. संख्या 5/2/2009-सी.एस.-II के अनुसार, राष्ट्रपति, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सी.एस.एस.एस. संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'ग' श्री संजीव कुमार को सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा-2005 के आधार पर 11.06.2009 के पूर्वाह्न से रुपये 9,300--34,800/- (वेतन बैंड) + रुपये 4,800/- (ग्रेड वेतन) के वेतनमान में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में सी.एस.एस.एस. संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क' एवं 'ख' (विलयित) के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

सं. ए-12011/3/2009-स्था.--राष्ट्रपति, रेलवे मंत्रालय के संवर्ग के सहायक श्री के. एस. सीतारामन को 29.05.2009 से सहायकानी आधार पर रुपये 6,600/- के ग्रेड वेतन के साथ रुपये 15,600--39,100/- वेतन बैंड में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में मंत्री (श्री मुरली देवरा) के कार्यालय में अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में नियुक्त करती है।

अरुणोदय गोस्वामी, अवर सचिव

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

(उर्वरक विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2009

सं. ए-12011/3/2009-मा.सं.-II--सक्षम प्राधिकारी श्री प्रदीप यादव, आईएएस (तमिलनाडु : 1992), निदेशक, गृह मंत्रालय को रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री एम. के. अझागिरी) के निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं। उनकी यह नियुक्ति निदेशक स्तर की होगी और 09 जून, 2009 (पूर्वाह्न) से 5 (पाँच) वर्ष की अवधि तक अथवा उनके द्वारा मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य बंद कर देने तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, प्रभावी होगी। केन्द्र में उनकी सेवा अवधि की गणना 10.03.2008 से प्रभावी है।

एस. के. सिन्हा, उप सचिव

कोयला मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2009

सं. ए-23021/1/2001-प्र.--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के नियमित सहायक श्री दीपक गुप्ता को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 में उनके द्वारा अर्हता प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 जून, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/2009-सी.एस. के संदर्भ में, अनुभाग अधिकारी ग्रेड की 2005 की चयन सूची (परीक्षा कोटा) के अनुसार 17 जून, 2009 के पूर्वाह्न से पीबी-2 रुपये 9,300--34,800/- + रुपये 4,800/- के वेतनमान में कोयला मंत्रालय के सी.एस.एस. संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. ए-23021/1/2001-प्र.--राष्ट्रपति, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के नियमित सहायक श्री राम नरेश को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 में उनके द्वारा अर्हता प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 जून, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/2009-सी.एस. के संदर्भ में, अनुभाग अधिकारी ग्रेड की 2005 की चयन सूची (परीक्षा कोटा) के अनुसार 11 जून, 2009 के पूर्वाह्न से पीबी-2 रुपये 9,300--34,800/- + रुपये 4,800/- के वेतनमान में कोयला मंत्रालय के सी.एस.एस. संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सं. ए-23021/1/2001-प्र.--राष्ट्रपति, वित्त मंत्रालय के नियमित सहायक श्री शम्भू कुमार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा, 2005 में उनके द्वारा अर्हता प्राप्त कर लेने के परिणामस्वरूप तथा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 जून, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/2/2009-सी.एस. के संदर्भ में, अनुभाग अधिकारी ग्रेड की 2005 की चयन सूची (परीक्षा कोटा) के अनुसार 18 जून, 2009 के अपराह्न से पीबी-2 रुपये 9,300--34,800/- + रुपये 4,800/- के वेतनमान में कोयला मंत्रालय के सी.एस.एस. संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियमित आधार पर नियुक्त करते हैं।

एच. सी. अग्रवाल, निदेशक

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 मई 2009

सं. ए-18011/(91)/2007-स्था.--राष्ट्रपति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में उप सचिव श्री अभिजीत गांगुली को उनके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 मई, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति करते हैं।

पी. एस. वर्मा, उप सचिव

सं. ए-18011/(88)/2009-स्था.--राष्ट्रपति, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में अनुभाग अधिकारी श्री मामन सिंह को उनके अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर 31 मई, 2009 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति करते हैं।

पी. एस. वर्मा, उप सचिव

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
(उपभोक्ता मामले विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2009

सं. ए-12011/5/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री सतीश ज्ञानदेव राउत, डिप्टी कलेक्टर, महाराष्ट्र सरकार को दिनांक 17 जून, 2009 के पूर्वाह्न से उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी के कार्यकाल

पर्यन्त को-टर्मिनस (प्रतिनियुक्ति) आधार पर अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, 15,600--39,100/- रुपए के वेतन बैंड (पी बी-3) + 6,600/- रुपए के ग्रेड वेतन (समूह 'क' राजपत्रित) में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार) के अपर निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

दिनांक 25 जून 2009

सं. ए-12011/2/2008-प्रशासन--राष्ट्रपति, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 26 मई, 2009 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 9/5/2008-ई ओ (एम एम-1) के अनुसरण में उपभोक्ता मामले विभाग में श्री बृज मोहन, आई ए एंड ए एस (95) द्वारा धारित उप सचिव के पद को 01.07.2009 से उनके कार्यकाल की शेष अवधि, जो अब 05.08.2013 तक होगी अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए उनके लिए व्यक्तिगत उपाय के रूप में 37,400--67,000/- रुपए के वेतन बैंड (पी बी-4) + 8,700/- रुपए के ग्रेड वेतन में निदेशक के रूप में पुनः पदनामित करते हैं। श्री बृज मोहन केन्द्र में अपने कार्यकाल की गणना 06.08.2008 से करेंगे।

प्रेमा भट्ट, अवर सचिव

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जून 2009

सं. पृविमं/31/3/2007-स्था.--पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सक्षम प्राधिकारी सर्व श्री आशिम कुमार मजूमदार और एस. के. चौधुरी, कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को 24.04.2009 से 23.10.2009 तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, पे-बैंड-2 में 9,300--34,800/- रु. ग्रेड पे 4,600/- रु. के वेतनमान में तदर्थ आधार पर कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर पदोन्नत करते हैं।

2. इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें भविष्य में वरिष्ठता आदि जैसे लाभ प्राप्त करने के लिए नियमित किए जाने का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। मंत्रालय को संबंधित कार्मिकों को कोई कारण बताए बिना अथवा सूचना आदि दिए बिना इस तदर्थ नियुक्ति को समाप्त करने का अधिकार है।

संदेश सक्सेना, अवर सचिव

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 20 मई 2009

सं. ए-19011/01/2008-भा.व.से.-I--भारतीय वन सेवा, उड़ीसा संवर्ग के आवंटन वर्ष 1972 के भारतीय वन सेवा अधिकारी श्री पी. आर. मोहंती जो इस समय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति आधार पर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में वन महानिदेशक और भारत सरकार के विशेष सचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं, 31 मई, 2009 अपराह्न को सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

ए. के. लाल, निदेशक

नई दिल्ली-110003, दिनांक 16 फरवरी 2009

सं. 22012/74/2005-भा.व.से.-II--राष्ट्रपति, भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 9 के उपनियम (1) के साथ पठित भारतीय वन सेवा (भर्ती) नियम, 1966 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर प्रदेश राज्य वन सेवा के अधिकारी श्री राजीव अस्थाना (जन्मतिथि : 03.04.1955) को भारतीय वन सेवा में नियुक्त करते हैं और उनका नाम वर्ष 1990 की चयन सूची की क्र.सं. 16ए में श्री एस. के. सिंह (क्र.सं. 16) के नाम के नीचे और श्री के. एस. सामंत (क्र.सं. 17) के नाम के ऊपर समाविष्ट करते हैं तथा भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली 1966 के नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत उन्हें भारतीय वन सेवा का उत्तर प्रदेश संवर्ग आवंटित करते हैं।

2. इसे श्री राजीव अस्थाना बनाम भारतीय संघ एवं अन्य द्वारा दाखिल की गई ओ ए सं. 2616/2005 में माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रधान बैंच, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 19.06.2008 को रिव्यू सेलेक्शन कमेटी की बैठक के अनुवर्तन में जारी किया जाता है।

जोसेफ लुईखाम, अवर सचिव

दिनांक 20 मार्च 2009

सं. 17013/13/2008-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप विनियम 3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए वर्ष, 2008 के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की एक बैठक 15 दिसम्बर, 2008 को आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा संवर्ग के मध्य प्रदेश संवर्ग में उपलब्ध पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए मध्य प्रदेश राज्य वन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल है :-

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि
	सर्वश्री	
1.	डॉ. आर. बी. एस. कुश्वाहा	09.06.1956
2*	चन्द्र मौली पांडेय	01.07.1963
3.	धुरंधर सिंह कनेश (एस टी)	04.06.1960
4.	अशोक कुमार बंसल	15.12.1962

* क्रम सं. 2 के नाम को सूची में अस्थाई रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने और राज्य सरकार द्वारा निष्ठा प्रमाण पत्र मंजूर होने की शर्त पर निर्भर है।

जोसेफ लुईखाम, अवर सचिव

दिनांक 6 मई 2009

सं. 17013/22/2007-आईएफएस-II--इस मंत्रालय की दिनांक 06 जनवरी, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक रूप से संशोधन

करते हुए पैरा 2 की निम्नलिखित पंक्ति (अंतिम दो पंक्तियाँ) "और एसएलपी सं. 21416/2007 में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अधीन है" को निम्न प्रकार पढ़ा जाए :--

यूपीएससी बनाम ए. के. सलीम द्वारा दायर एसएलपी (सी) सं. 21416/2007 का माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 16.05.2008 के निर्णय के तहत निपटारा किया गया और उक्त एसएलपी में उनके आदेशों के अनुसरण में सेलेक्शन कमेटी की मीटिंग आयोजित की गई।

2. अन्य सभी मामले यथावत हैं।

जोसेफ लुईखाम, अवर सचिव

दिनांक 13 मई 2009

सं. 18012/01/2008-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (परिवीक्षा) विनियम 1968 के विनियम 3 (3) एवं 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों की उनके नाम के सामने दर्शाई गई तारीख से पुष्टि करती है :--

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	भा.व.से. में नियुक्ति की तारीख	पुष्टि की तारीख
सर्वश्री			
1.	बी. टी. धानखेड़े	29.07.2005	29.07.2006
2.	वी. एस. शेल्वे	29.07.2005	29.07.2006
3.	आर. एस. कदम	29.07.2005	29.07.2006
4.	डी. डी. गुजेल्ला	29.07.2005	29.07.2006
5.	एम. एम. कुलकर्णी	29.07.2005	29.07.2006
6.	पी. जी. राहुकर	29.07.2005	29.07.2006
7.	एल. जी. पांचाल	29.07.2005	29.07.2006

जोसेफ लुईखाम, अवर सचिव

दिनांक 15 जून 2009

सं. 17013/29/2008-भा.व.से.-II--भारतीय वन सेवा (पदोन्नति द्वारा नियुक्ति) विनियम, 1966 के विनियम 7 के उप विनियम-3 में निहित उपबंधों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य वन सेवा से भारतीय वन सेवा में पदोन्नति के लिए वर्ष, 2008 के लिए चयन सूची तैयार करने के लिए चयन समिति की एक बैठक 30 दिसंबर, 2008 को आयोजित की गई थी। संघ लोक सेवा आयोग ने उक्त बैठक में तैयार की गई चयन सूची को अनुमोदित कर दिया है जिसमें भारतीय वन सेवा संवर्ग के मध्य प्रदेश संवर्ग में उपलब्ध

पदोन्नति रिक्तियों को भरने के लिए महाराष्ट्र राज्य वन सेवा संवर्ग के निम्नलिखित अधिकारियों का नाम शामिल है :--

क्रम सं.	नाम	जन्मतिथि
(सर्वश्री)		
1*.	वी. बी. ठाकरे	26.05.1960
2.	सी. एम. धारन्कर	06.08.1958
3.	ए. एस. कालस्कर	07.01.1961

*क्रम सं. 1 के नाम को सूची में अस्थायी रूप से शामिल किया गया है जो उनके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी होने और राज्य सरकार द्वारा निष्ठा प्रमाण पत्र मंजूर होने की शर्त पर निर्भर है।

जोसेफ लुईखाम, अवर सचिव

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली-110108, दिनांक 22 जून 2009

सं. ए-12025/75/2006-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. जयदीप डे को 17.10.2008 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में पे बैंड-3(15,600--39,100/- रुपए) + 5,400/- रुपए (ग्रेड पे) के वेतनमान में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं। डॉ. जयदीप डे को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। डॉ. जयदीप डे नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 24 जून 2009

सं. ए-12025/94/2007-सी.एच.एस.-I--राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर डॉ. अनिल कुमार कांडपाल को 19.09.2008 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक पे बैंड-3(15,600--39,100/- रुपए) + ग्रेड पे 5,400/- रुपए के वेतनमान में केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सा अधिकारी ग्रेड में अस्थायी आधार पर नियुक्त करते हैं। डॉ. अनिल कुमार कांडपाल को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात किया जाता है। डॉ. अनिल कुमार कांडपाल नियुक्ति की तारीख से दो वर्षों तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

श्रीमती माया प्रकाश, अवर सचिव

दिनांक 26 मई 2009

सं. ए-22014/1/2008-स्थापना-III--सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 23.04.2009 के आदेश संख्या

12016/2/2009-एसएसएस के अनुसरण में इस विभाग में कार्यरत श्री एम. एस. चहार, अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-2 ने तदर्थ आधार पर 23.04.2009 (पूर्वाह) से अगले आदेशों तक 4,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 9,300--34,800/- रुपए के संशोधित वेतन बैंड-2 में सांख्यिकीय अन्वेषक ग्रेड-1 का पदभार संभाल लिया है।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

सं. ए-12023/01/2008-स्थापना-III--राष्ट्रपति, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में कार्यरत डॉ. रंजन विकास, नियमित मूल्यांकन सहायक को इस मंत्रालय के तहत स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के क्षेत्रीय कार्यालय, पटना में 12 जून, 2008 की पूर्वाह से नियमित आधार पर 4,200/- रुपए (पूर्व-संशोधित 6,500--10,500/- रुपए) ग्रेड पे सहित पे बैंड-2 में मूल्यांकन अधिकारी के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल उनियाल, अवर सचिव

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2009

सं. ए-19011/11/2007-प्रशासन-I--राष्ट्रपति, श्री बी. एन. नंदा, निदेशक, पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग को आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 5 जून, 2009 के आदेश सं. पी-3/2009 (फा. सं. 13016/2/2009.आईईएस) के तहत भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उनकी पदोन्नति के उपरान्त उन्हें 37,400--67,000/- + 10,000/- रुपये (ग्रेड पे) के वेतनमान में 5 जून, 2009 के पूर्वाह से पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करती हैं।

पी. एल. मीना, अवर सचिव

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(भूमि संसाधन विभाग)

नई दिल्ली-110011, दिनांक 12 जून 2009

सं. ए-12036/2/2009-प्रशासन--राष्ट्रपति, श्री देवाशीष भौमिक, कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम (एन.सी.डी.सी.), नई दिल्ली को ग्रामीण विकास राज्य मंत्री (श्री शिशिर कुमार अधिकारी) के अपर निजी सचिव के पद पर 5 जून, 2009 के अपराह से, को-ऑर्मिनस आधार पर या उनके मंत्री महोदय के अपर निजी सचिव के रूप में कार्य करते रहने तक या अगले आदेशों के जारी होने तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

नवीन चन्द्र, अवर सचिव

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 जून 2009

सं. ए.32014(1)/2009-स्थापना-III--कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 5/2/2009-सी-एस-II दिनांक 16.03.2009

के अनुपालन में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड-बी/ग्रेड-1) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा 2005 के आधार पर राष्ट्रपति, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के सीएसएसएस संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'सी' आशुलिपिकों को इसी संवर्ग में वेतन बैंड-2 9,300--34,800/- रु. + ग्रेड पे 4,800/- रु. के वेतनामान में उनके नाम के सामने दी गई तारीख से निजी सचिव के रूप में नियुक्त करते हैं :--

क्रम सं.	नाम	कार्यग्रहण करने की तारीख
1	2	3
1.	सुश्री मोनिका मल्होत्रा	27.03.2009
2.	श्री हंसराज	25.03.2009
3.	श्री मनोहर लाल	25.03.2009
4.	श्री राकेश गुप्ता	25.03.2009
5.	श्री सत्यनाथन सी. के.	25.03.2009
6.	श्री तरुण पाहवा	25.03.2009
7.	श्री अशोक कुमार खुराना	25.03.2009

जिले सिंह विकल, अवर सचिव

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 01 जून 2009

सं. 22-30/2006-प्रशा.--श्री वी. सी. तिवारी के अधिवर्षिता की आयु प्राप्त करने पर, राष्ट्रपति उन्हें 31.05.2009 (अपराह) से राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्य-सचिव के पद के कार्यभार से मुक्त करते हैं।

शकुन्तला जैन, अवर सचिव

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 1 जून 2009

सं. ए.12026/01/2007-स्था.--सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में सक्षम प्राधिकारी, श्री अशोक कुमार चावला को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति आधार पर धारित सहायक सम्पादक के पद से दिनांक 01.06.2009 (पूर्वाह) से सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा के वरिष्ठ अनुवादक के स्थाई पद पर प्रत्यावर्तित करते हैं।

विनोद कुमार शर्मा, अवर सचिव

जनजातीय कार्य मंत्रालय

नई दिल्ली-110015, दिनांक 10 जून 2009

सं. 11036/9/2006-पी.सी.एंड वी.--इस मंत्रालय की अधिसूचना सं. 11036/9/2006-पी.सी.एंड वी.(1), दिनांक 11.12.2008 में आंशिक संशोधन करते हुए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के खण्ड 5(1) के संदर्भ में इस मंत्रालय के सांख्यिकी प्रभाग तथा उपरोक्त अधिसूचना के क्र. सं. 4 पर दर्शाए गए विशिष्ट मामलों के संबंध में श्री जी. सजीवन, निदेशक, को श्रीमती मैथिली, निदेशक के स्थान पर एतद्वारा केन्द्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

2. श्री जी. सजीवन का सरकारी पता एवं दूरभाष सं. निम्नानुसार है :--

कमरा नं. 281, अगस्त क्रांति भवन,
भीकनजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
दूरभाष सं. 26182843

3. उपरोक्त अधिसूचना के क्रम सं. 4 पर दर्शाया गया श्रीमती मैथिली, निदेशक का नाम इस मंत्रालय से स्थानान्तरण के कारण हटया गया समझा जाए।

बी. बी. शर्मा, उप-निदेशक (पी.सी.एंड वी.)

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110003, दिनांक 19 जून 2009

सं. 3(6)/2009-कार्मिक-I--राष्ट्रपति जी ने सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के उप निदेशक, श्री अल्लाफ खान को इस विभाग में दिनांक 15.06.2009 के पूर्वाह्न से 7,600/- रुपए के ग्रेड वेतन सहित 15,600--39,100/- रुपए के संशोधित वेतन ढाँचे में स्वस्थाने/वैयक्तिक आधार पर संयुक्त निदेशक नियुक्त किया है।

गिरीश सहाय, संयुक्त निदेशक

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र

नई दिल्ली-110003, दिनांक 30 जून 2009

सं. पीएफ/2631/एनआईसी/2008-प्रशा.-I--राष्ट्रपति, एतद्वारा श्रीमती वी. एस. सुधाकुमारी, कर्मचारी कोड सं. 2631 का राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र-कर्नाटक राज्य एकक, बेंगलूर में वैज्ञानिक "एफ" के पद से स्वेच्छिक सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च, 2009 की पूर्वाह्न से स्वीकार करते हैं और उन्हें उसी दिन से कार्यमुक्त किया जाता है।

आर. एम. नायर, उप निदेशक (प्रशा. I)

मानकीकरण परीक्षण तथा गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय

नई दिल्ली-110003, दिनांक 18 जून 2009

सं. 16(4)/2008-पीए(टीए)--राष्ट्रपति महोदय द्वारा इस निदेशालय के निम्न वैज्ञानिक 'बी' जोकि पे बैंड-2 रु. 9,300--34,800/- + ग्रेड पे 5,400/- के वेतनमान में कार्यरत हैं उन्हें वैज्ञानिक 'सी' के पद पर पे बैंड-3 रु. 15,600--39,100/- + ग्रेड पे 6,600/- के वेतनमान में दिनांक 11.05.2009 (पूर्वाह्न) को नियुक्त किया है :--

1. श्री के. वी. एल. उमामहेश
2. श्रीमती टी. शोभा नायडू
3. श्री विनय राजपूत

एस. रामाकृष्णन, उप निदेशक

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2009

सं. ईआरबी-I/2009/14/14--रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आरबीएसएसएस) के निम्नलिखित वैयक्तिक सहायकों को प्रत्येक के सामने दर्शाई गई तारीख से तदर्थ आधार पर 9,300--34,800/- रुपए के पे बैंड-2 + 4,800/- रुपए ग्रेड पे (संशोधित) में रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिकीय सेवा (आरबीएसएसएस) के निजी सचिव के रूप में पदोन्नत किया गया है :--

क्र. सं.	नाम	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
	सर्वश्री/श्रीमती	
1.	भरत भटनागर	04.06.2009 (पूर्वाह्न)
2.	राकेश कुमार सदाना	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
3.	बी. मदनराज	08.06.2009 (पूर्वाह्न)
4.	अमित कुमार	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
5.	तुलसी राम	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
6.	शोभा पसरीचा	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
7.	प्रकाशन ए. वी.	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
8.	ज्योतिबाला सरीन	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
9.	अंजू आनन्द	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
10.	आर. जया लांबा	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
11.	सुषमा कालरा	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
12.	मनमीत कौर	03.06.2009 (पूर्वाह्न)
13.	अमित कुमार चौधरी	04.06.2009 (पूर्वाह्न)

के. बी. एल. मित्तल, सचिव,
(रेलवे बोर्ड)

दिनांक 1 जुलाई 2009

सं. ई(जी.पी.)2004/1/49--राष्ट्रपति महोदय, भारतीय रेलवे के सिविल इंजीनियरी विभाग के ग्रुप 'बी' अधिकारी की उल्लिखित रेलवे पर 12.06.2008 से भारतीय रेल सिविल इंजीनियरी सेवा (आई.आर.एस.ई.) के कनिष्ठ वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्ति किये जाने का अनुमोदन करते हैं :--

2006-07 के लिए पैन्ल

अधिकारी का नाम

उत्तर पश्चिम रेलवे

1. श्री एम. एम. उपाध्याय

के. बी. एल. मित्तल, सचिव,
(रेलवे बोर्ड)

पोत परिवहन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2009

सं. ए-12023/1/2009-स्था.--राष्ट्रपति, डॉ. राजेन्द्र कुमार, आईएस (टीएन-1992) को निदेशक के स्तर पर, माननीय नौवहन मंत्री (श्री जी. के. वासन) के निजी सचिव के रूप में वेतनमान पीबी-4 के पे बैंड रु. 37,400--67,000 + रु. 8,700/- (ग्रेड पे) दिनांक 11.06.2009 से आगामी पांच वर्ष तक या जब तक वह माननीय मंत्री के निजी सचिव के रूप में कार्य करते हैं अथवा अगले आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, सहर्ष नियुक्त करते हैं।

अश्वनी कुमार, उप सचिव

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 25 जून 2009

सं. ए-12023/1/2009-स्था.-1--राष्ट्रपति, श्री दामोदरन विजयन को 6,600/- रु. के ग्रेड पे के साथ 15,600--39,100 रु. के पे बैंड-3 में 01.06.2009 (पूर्वाह्न) से अगले आदेशों तक अथवा जब तक माननीय मंत्री इनकी सेवा लेना चाहें, जो भी पहले हो, सह-अवसानी आधार पर माननीय मंत्री (सड़क परिवहन और राजमार्ग) श्री कमलनाथ के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर नियुक्त करते हैं।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

दिनांक 30 जून 2009

सं. ए-12023/2/2009-ई-1--राष्ट्रपति, लोक सभा सचिवालय में अवर सचिव श्री तीर्थकर दास को माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री (श्री आर. पी. एन. सिंह) के अपर निजी सचिव के पद पर दिनांक 15.06.2009 (पूर्वाह्न) से 15,600--39,100 रु. के पे बैंड पीबी-3 + 6,600/- रु. के ग्रेड पे में प्रतिनियुक्ति/सह-अवसानी आधार पर अगले आदेशों तक अथवा जब तक मंत्री जी उनकी सेवा लेना चाहें तब तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

वी. कृष्णास्वामी, अवर सचिव

विद्युत मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 19 जून 2009

सं. 20/2009 (फा. सं. 1/4/2009-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री रमेश एच. स्वामी, उप सचिव, महाराष्ट्र विधान सभा सचिवालय को रु. 10,000-325-15,200/- (पूर्व संशोधित) के वेतनमान में दिनांक 1 जून, 2009, पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, माननीय विद्युत मंत्री (श्री सुशीलकुमार शिंदे) के निजी स्टाफ में अपर निजी सचिव, के रूप में नियुक्त करते हैं। श्री स्वामी की नियुक्ति अस्थायी और मंत्री के कार्यकाल तक अथवा उनकी इच्छानुसार, जो भी पहले हो, तक रहेगी।

मधुकर सूद, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 22 जून 2009

सं. 21/2009 (फा. सं. 2/7/2008-प्रशा. II)--राष्ट्रपति, श्री राजीव कुमार गुप्ता, आई.एफ.एस. (यूटी : 1988) को, दिनांक 22 जून, 2009 के पूर्वाह्न से रु. 37,400--67,000/- (पीबी-4) के वेतन बैंड और रु. 8,700/- के ग्रेड वेतन में, विद्युत मंत्रालय में निदेशक के रूप में 5 वर्ष की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, नियुक्त करते हैं।

एन. श्रीरामन, अवर सचिव

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 जून 2009

सं. 15/2009 (फा. सं. 4/9/2002-प्रशा.)--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग की श्रीमती शरणजीत, सहायक को जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में 19.03.2009 (पूर्वाह्न) से लेकर अगले आदेश होने तक स्थायी आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये (संशोधित) पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के संशोधन पूर्व वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त व्यक्ति की नियुक्ति उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम संघ सरकार द्वारा दायर न्यायालयी मामला सं. 13245-60/2005 और कैट, दिल्ली में लंबित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ सरकार द्वारा दायर, मामला सं. ओए 1083/2007 एवं एमए सं. 1171/2007 के निर्णय के अधीन होगी।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 16/2009 (फा. सं. 4/9/2002-प्रशा.)--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री एस. आर. ए. खादरी, सहायक को जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में 19.03.2009 (पूर्वाह्न) से लेकर अगले आदेश होने तक स्थायी आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये (संशोधित) पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के संशोधन-पूर्व वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त व्यक्ति की नियुक्ति उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम संघ सरकार द्वारा दायर न्यायालयी मामला सं. 13245-60/2005 और कैट, दिल्ली में लंबित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ सरकार द्वारा दायर, मामला सं. ओए 1083/2007 एवं एमए सं. 1171/2007 के निर्णय के अधीन होगी।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 17/2009 (फा. सं. 4/9/2002-प्रशा.)--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री साधु राम, सहायक को जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में 19.03.2009 (पूर्वाह्न) से लेकर अगले आदेश होने तक स्थायी आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये (संशोधित) पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये

(ग्रेड पे) के संशोधन-पूर्व वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त व्यक्ति की नियुक्ति उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम संघ सरकार द्वारा दायर न्यायालयी मामला सं. 13245-60/2005 और कैट, दिल्ली में लंबित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ सरकार द्वारा दायर, मामला सं. ओए 1083/2007 एवं एमए सं. 1171/2007 के निर्णय के अधीन होगी।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 18/2009 (फा. सं. 4/9/2002-प्रशा.)--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री नगेन्द्र कुमार, सहायक को जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में 19.03.2009 (पूर्वाह्न) से लेकर अगले आदेश होने तक स्थायी आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये (संशोधित) पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के संशोधन-पूर्व वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त व्यक्ति की नियुक्ति उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम संघ सरकार द्वारा दायर न्यायालयी मामला सं. 13245-60/2005 और कैट, दिल्ली में लंबित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ सरकार द्वारा दायर, मामला सं. ओए 1083/2007 एवं एमए सं. 1171/2007 के निर्णय के अधीन होगी।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 19/2009 (फा. सं. 4/9/2002-प्रशा.)--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री ए. पी. वर्मा, सहायक को जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में 19.03.2009 (पूर्वाह्न) से लेकर अगले आदेश होने तक स्थायी आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये (संशोधित) पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के संशोधन-पूर्व वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त व्यक्ति की नियुक्ति उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम संघ सरकार द्वारा दायर न्यायालयी मामला सं. 13245-60/2005 और कैट, दिल्ली में लंबित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ सरकार द्वारा दायर, मामला सं. ओए 1083/2007 एवं एमए सं. 1171/2007 के निर्णय के अधीन होगी।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

सं. 20/2009 (फा. सं. 4/9/2002-प्रशा.)--राष्ट्रपति, जल संसाधन मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के श्री एम. एफ. अयूबी, सहायक को जल संसाधन मंत्रालय के सीएसएस संवर्ग में 19.03.2009 (पूर्वाह्न) से लेकर अगले आदेश होने तक स्थायी आधार पर 6,500-200-10,500/- रुपये (संशोधित) पे बैंड-3, 15,600--39,100/- रुपये + 5,400/- रुपये (ग्रेड पे) के संशोधन-पूर्व वेतनमान में अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपरोक्त व्यक्ति की नियुक्ति उच्च न्यायालय में लंबित श्री कैलाश चन्द्र बनाम संघ सरकार द्वारा दायर न्यायालयी मामला सं. 13245-60/2005 और कैट,

दिल्ली में लंबित श्री सौरांशु सिन्हा बनाम संघ सरकार द्वारा दायर, मामला सं. ओए 1083/2007 एवं एमए सं. 1171/2007 के निर्णय के अधीन होगी।

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 30 जून 2009

सं. 21/2009 (फा. सं. 25/3(31)/2008-स्थापना-1)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2007 के परिणामों के आधार पर राष्ट्रपति ने श्री राकेश कुमार गौतम को दिनांक 26.05.2009 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (गुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 रुपये 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रुपये 5,400/- वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री राकेश कुमार गौतम कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सं. 22/2009 (फा. सं. 25/3(25)/2008-स्थापना-1)--संयुक्त इंजीनियरिंग सेवा परीक्षा 2007 के परिणामों के आधार पर, राष्ट्रपति ने श्री गौरव शर्मा को दिनांक 26.05.2009 पूर्वाह्न से केन्द्रीय जल आयोग में केन्द्रीय जल इंजीनियरिंग (गुप क) सेवा के सहायक निदेशक/सहायक कार्यकारी इंजीनियर (सिविल/मैकेनिकल) के पद पर वेतन बैंड-3 रुपये 15,600--39,100/- तथा ग्रेड पे रुपये 5,400/- के वेतनमान में कार्य करने के लिए नियुक्त किया है।

2. श्री गौरव शर्मा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए परीक्षाधीन रहेंगे जिसे आवश्यक समझे जाने पर बढ़ाया जा सकता है।

के. राजप्पा, अवर सचिव

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 18 जून 2009

सं. 188/2009 (फा. सं. 5/5/2007-प्रशा. II)--माननीय राष्ट्रपति, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के दिनांक 5 जून, 2009 के आदेश सं. पी-3/2009 के तहत सुश्री सुनंदा शर्मा, भारतीय आर्थिक सेवा को भारतीय आर्थिक सेवा के वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में उनके पद का वैयक्तिक उन्नयन होने के परिणामस्वरूप और तदुपरांत, दिनांक 05.06.2009 से इस मंत्रालय में उनके द्वारा आर्थिक सलाहकार के पद का कार्यभार संभालने के पश्चात् सुश्री सुनंदा शर्मा, भा.आ.से. को पे बैंड-4 में 10,000/- रुपए के ग्रेड पे के साथ 37,400--67,000/- रुपए के वेतनमान में दिनांक 05.06.2009 की पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त करती है।

राम फल, अवर सचिव

दिनांक 19 जून 2009

सं. 198/2009 (फा. सं. 3/5/2008-प्रशा. II)--माननीय राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायकों द्वारा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा-2005 में अर्हता प्राप्त करने के परिणामस्वरूप

और तदुपरांत, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05.06.2009 के का. ज्ञा. सं. 6/2/2009-सी.एस. I के तहत परीक्षा कोट में इस मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा में उन्हें नामित किए जाने के पश्चात्, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के निम्नलिखित नियमित सहायकों को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तारीखों से और उल्लिखित कार्यालयों में सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में नियमित आधार पर केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के रूप में नियुक्त करती हैं :--

क्र. सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख	तैनाती की तारीख
1	2	3	4
	(सर्वश्री)		
1.	एस. पी. आर. त्रिपाठी	12.06.2009 (पूर्वाह्न)	मुख्य सचिवालय (भा.सू.से.)
2.	दीपेन्द्र सिंह	11.06.2009 (पूर्वाह्न)	मुख्य सचिवालय (प्रेस)

1	2	3	4
3.	राजेश कुमार	11.06.2009 (पूर्वाह्न)	मुख्य सचिवालय (बी.ए-ई.)

राम फल, अवर सचिव

श्रम रोजगार मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 जून 2009

सं. ए-12025/14/2001-आईएसएच-II--राष्ट्रपति, श्री मुरली धर मिश्रा को दिनांक 31.03.2009 (पूर्वाह्न) से और अगले आदेशों तक 12,000-375-16,500/- रुपये के पूर्व-संशोधित वेतनमान में खान सुरक्षा महानिदेशालय, धनबाद में उप-निदेशक, खान सुरक्षा (खनन) के पद पर नियुक्त करते हैं।

सुभाष चन्द, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi-110101, the 20th June 2009

No. A. 22017/1/2004-PMA(Estt.)—Consequent upon completion of his tenure on Central Deputation, Shri Ashish Kumar Singh, IAS (MH: 88), Private Secretary to MOS (PMO), has relinquished the charge with effect from the afternoon of 20th June 2009.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 22nd June 2009

No. A. 22017/4/2004-PMA(Estt.)—Consequent upon demission of the office by Shri Prithviraj Chavan as Minister of State in the Prime Minister's Office on 22nd May 2009, Shri Anilkumar Vinayak Patil, Under Secretary of CSS, presently working as Additional Private Secretary to MOS (PMO), has relinquished the charge with effect from the forenoon of 22nd June 2009.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

The 25th June 2009

No. A.27017/1/2009-PMA(Estt.)—The President is pleased to appoint Dr. Harish Khare, as Media Adviser to the Prime Minister in the Prime Minister's Office in the rank, pay and status of Secretary to the Government of India, with effect from the forenoon of 24th June 2009, until further orders.

K. SALIL KUMAR, Under Secy.

RAJYA SABHA SECRETARIAT

New Delhi-110001, the 24th June 2009

No. RS/6/3/2009/31-Perf.—The following individuals have been appointed in the Rajya Sabha Secretariat in the Personal Staff of Leader of Opposition, Rajya Sabha with effect from the forenoon of 13th June, 2009, until further orders:—

- (i) Shri Surender Datt Ranakoti as Senior Private Secretary in PB-3 of Rs. 15,600+39,100 + Grade Pay of Rs. 6,600/ and
- (ii) S/Shri Surender Prasad Devrani and Padam Singh as Private Secretaries in PB-3 of Rs. 15,600—39,100/- + Grade Pay of Rs. 5,400/-.

2. The above appointments are at the discretion of the present Leader of Opposition, Rajya Sabha (Shri Arun Jaitley) and will be co-terminus with the term of his office.

C.B. RAI, Director

PLANNING COMMISSION

New Delhi, the 5th June 2009

No. A-43011/23/2004-Admn.I.—In pursuance of the Cabinet Secretariat's ID Note No. A-12031/1/04-Ad.I dated

05.06.2009, the Planning Commission is reconstituted as Under:—

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Dr. Manmohan Singh, | Chairman |
| Prime Minister | |
| 2. Shri Montek Singh Ahluwalia | Deputy Chairman |
| 3. Shri B.K. Chaturvedi | Member |
| 4. Dr. Saumitra Chaudhuri | Member |
| 5. Dr. (Ms.) Syeda Hameed | Member |
| 6. Dr. Narendra Jadhav | Member |
| 7. Prof. Abhijit Sen | Member |
| 8. Dr. Mihir Shah | Member |

SUBAS PANI, Secy.

The 18th June 2009

No. A-43011/23/2004-Adm.I—In continuation of Planning Commission's Notification of even number dated 5th June, 2009 and in pursuance of the Cabinet Secretariat's ID Note No. A-12013/1/04-Ad.I, dated 12th June, 2009, the following Union Ministers would also be Members of the Planning Commission:—

- (i) Shri Pranab Mukherjee, Minister of Finance
- (ii) Shri Sharad Pawar, Minister of Agriculture and Minister of Consumer Affairs, Food & Public Distribution.
- (iii) Shri P. Chidambaram, Minister of Home Affairs
- (iv) Km. Mamata Banerjee, Minister of Railways
- (v) Shri Ghulam Nabi Azad, Minister of Health & Family Welfare.
- (vi) Shri Kamal Nath, Minister of Road Transport and Highways.
- (vii) Shri Dayanidhi Maran, Minister of Textile.
- (viii) Shri Kapil Sibal, Minister of Human Resource Development.
- (ix) Shri V. Narayanasamy, Minister of State for Planning and Parliamentary Affairs.

SUBAS PANI, Secretary

New Delhi, the 8th June 2009

No. F. 6 (2088)/2009-Adm.I—In pursuance of the Planning Commission's Notification No. A-43011/23/2004-Admn.I, dated 05.06.2009, Dr. Saumitra Chaudhuri has assumed charge as Member, Planning Commission w.e.f. 08.06.2009 (FN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. F. 6 (2020)/2007-Adm.I(Vol.II)—In pursuance of the Planning Commission's Notification No. A-43011/23/2004-Admn.I, dated 05.06.2009, Shri B.K. Chaturvedi, retired IAS, has assumed charge as Member, Planning Commission w.e.f. 06.06.2009 (FN).

S. KESAVA IYER, Under Secy.

No. A-43011/23/2004-Adm.I—Consequent on reconstitution of the Planning Commission vide Planning Commission's Notification of even number dated 05.06.2009, the following cease to be Members of the Planning Commission with effect from the afternoon of 05th June, 2009.

1. Dr. Kirit S. Parikh
2. Dr. V.L. Chopra
3. Dr. Bhalchandra Munekar
4. Shri B.N. Yugandhar
5. Shri Anwar-ul-Hoda

S. KESAVA IYER, Under Secy.

The 23rd June 2009

No. A-44011/5/2009-Adm.I—In pursuance of Department of Economic Affairs' Order No. P-3/2009 dated 05.06.2009 issued from their file No. 13016/2/2009-IES, the following Non-Functional Selection Grade (NFSG) Officers of IES working as Directors in Planning Commission are promoted to the Senior Administrative Grade (SAG) in the Service in the scale of pay of Rs. 18,400-22,400/- (pre-revised) (revised to Pay Band-4 : Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/-) against their posts which have been upgraded to SAG following the Cabinet decision of 21.08.2008 and the subsequent Gazette Notification No. GSR 648 (E) dated 10.09.2008, with effect from the dates mentioned against them:—

S. No.	Name of the Director	Date of Promotion
1.	Shri Badri Singh Bhandari	05.06.2009 (FN)
2.	Shri Arvinder Singh Sachdeva	05.06.2009 (FN)
3.	Shri Surinder Singh	05.06.2009 (FN)
4.	Shri Sat Pal Chouhan	05.06.2009 (FN)
5.	Ms. Sunita Sanghi	05.06.2009 (FN)
6.	Ms. Suman Kaushik	10.06.2009 (FN)

2. The said upgraded posts will slide back to NFSG level on retirement of the promoted officer(s) from service OR when the promoted officer(s) are covered within the sanctioned SAG posts of IES.

3. Consequent on their promotion to SAG of IES, they are designated as Advisers in the Planning Commission.

S. KESVA IYER, Under Secy.

MINISTRY OF LAW & JUSTICE

(DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS)

New Delhi, the 24th June 2009

No. A-12023/21/2006-Admn. III(LA)—On attaining the age of superannuation as laid down in Rule 11 of the Income Tax Appellate Tribunal Members (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 1963, Dr. O.P. Shukla, Judicial Member, Income Tax Appellate Tribunal has retired from service with effect from the afternoon of 6th June, 2009 (06.06.2009).

M.A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

No. A-31013/1/2008-Admn.-III (LA).—In pursuance of the instructions contained in the Department of Personnel and Training's O.M. No. 18011/1/86-Estt. (D) dated 28.03.1988 and as per orders of the Competent Authority, the under mentioned Members of the Income Tax Appellate Tribunal are appointed substantively in the same grade with effect from the dates indicated against their names :—

S. No.	Name & Designation of Member	Date of substantive appointment as Member in the Income Tax Appellate Tribunal
(S/Shri)		
1.	Ms. Sushma Chowla, Judicial Member	28-02-2007
2.	Smt. P. Madhavi Devi, Judicial Member	28-02-2007
3.	Krishan Gopal Bansal, Accountant Member	28-02-2007
4.	D. C. Agrawal, Accountant Member	28-02-2007
5.	Riyaz Abdul Sattar Padvekar, Judicial Member	28-02-2007
6.	Rama Kanta Panda, Accountant Member	28-02-2007
7.	Rajendra Singh, Accountant Member	02-03-2007
8.	N. L. Kalra, Accountant Member	28-02-2007
9.	Virendra Kumar Gupta, Accountant Member	28-02-2007
10.	Keshav Dev Ranjan, Accountant Member	28-02-2007
11.	Shamim Yahya, Accountant Member	10-03-2007

M. A. KHAN YUSUFI, Jt. Secy. & Legal Adviser

DEPARTMENT OF JUSTICE

New Delhi-110011, the 8 June 2009

No. K-13026/4/2008-US-II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (i) Smt. Anjana Prakash, and (ii) Shri Jyoti Saran as Additional Judges of the Patna High Court, in that order of seniority, for a period of two years with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

The 19th June 2009

No. K-13029/1/2008-US-II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Sonam Phintso Wangdi to be a Judge of the Sikkim High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

No. K-13015/1/2008-US-II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint (1) Shri Syamal Kanti Chakrabarti (2) Md. Abdul Ghani, (3) Shri Raghunath Ray, (4) Shri Mrinal Kanti Sinha, and (5) Shri Prabhat Kumar Dey, to be Judges of the Calcutta High Court, in that order of seniority, with effect from the dates they assume charge of their respective offices.

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.

New Delhi-110011, the 12th June 2009

No. K-13027/7/2008-US-II.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 217 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Justice Kanwaljit Singh Ahluwalia, Additional Judge of the Punjab & Haryana High Court, to be a Judge of the Punjab & Haryana High Court with effect from the date he assumes charge of his office.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

The 24th June 2009

No. K-13021/2/2008-US-I.—In exercise of the powers conferred by clause (1) of article 224 of the Constitution of India, the President is pleased to appoint Shri Aravind Kumar to be an Additional Judge of the Karnataka High Court for a period of two years with effect from the date he assumes charge of his office.

S. K. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi-110001, the 24th June 2009

No. I-18011/8/2009-IPS-IV.—In exercise of the powers conferred by Rule-3A of the Indian Police Service (Probation) Rules, 1954, the President is pleased to confirm in the Indian Police Service the following members of the Indian Police Service borne on the cadre of Karnataka with effect from the dates mentioned against their names :—

S. No.	Name of the IPS probationer	Date of confirmation
1.	Shri Pawar Pravin Madhukar, IPS (KTK : 2003)	01-09-2005
2.	Shri Thrilok Chandra K. V., IPS (KTK : 2003)	22-12-2005
3.	Shri N. Satheesh Kumar, IPS (KTK : 2003)	22.12.2005
4.	Shri Sandeep Patil, IPS (KTK : 2004)	06-09-2006
5.	Shri Vikash Kumar Vikash, IPS (KTK : 2004)	06-09-2006

RAJINDER KUMAR, Section Officer (IPS-IV)

INTER-STATE COUNCIL SECRETARIAT

New Delhi, the 24th June 2009

No. A-19011/4/2009-ISC.—The President is pleased to appoint Mrs. Pramila Raghavendran, as Deputy Secretary (Central Secretariat Service), Inter-State Council Secretariat, Ministry of Home Affairs on regular basis with effect from the afternoon of 5th June, 2009.

MAHARUDRA SINGH, Under Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi-110067, the 29th June 2009

No. 13019/1/2009-Academy (Desk).—The President is pleased to appoint Smt. Jaspreet Talwar, IAS (PB : 95) as Deputy Director (Deputy Secretary Level) in the Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration, Mussoorie in PB : 3 Rs. 15,600—39,100/- Plus Grade Pay Rs. 7,600/- w.e.f. 24-04-2009 (forenoon) for a period of four years or until further orders, whichever takes place earlier.

SANDEEP MUKHERJEE, Under Secy.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 18th March 2009

No. 11/PA-II/09.—The President is pleased to confirm the following officers of the Indian Foreign Service 2004-05 Batches in the Indian Foreign Service with effect from the dates mentioned against their names :—

Sl. No.	Name of Officer	Batch	Present assignment	Date of Confirmation
1.	Sh. Arindam Bhattacharyya	2004	Hqrs	01-05-2008
2.	Smt. Suja K. Menon	2005	Port Louis	23-10-2008
3.	Sh. Gaurav Ahluwalia	2005	Brussels	23-10-2008
4.	Smt. Ajungla Jamir	2005	Kuala Lumpur	24-10-2008
5.	Dr. Amit S. Telang	2005	Berlin	23-10-2008

2. Consequent upon their confirmation in the Indian Foreign Service, the officers are promoted as Under Secretaries in the Junior Scale of the service in their respective assignment with effect from the dates mentioned against their names.

3. This supersedes our Notification No. 9/PA-II/09 dated 18th March, 2009.

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.

The 19th March 2009

No. 10/PA-II/2009—The President is pleased to appoint the following officer of Integrated Grades II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B' in Grade-I of IFS(B) with effect from the date mentioned against their name:—

Name	Date of Promotion
Sh. Brajabashi Sarkar	01.03.2009 ✓

2. The above appointment will be subject to any Court decision, which may have a bearing on the promotion.

R. GAURAV SHRESTH, Dy Secy.

The 18th June 2009

No. Q/GA/579/3/2008—The Government of India has opened the following Mission:—

Name of the Mission	Date/Month/Year of Opening
Embassy of India, Bamako (Mali)	06.05.2009

2. All Ministries and Departments of the Government of India, all State Governments and the Administrations of all Union Territories are requested to ensure that the correspondence to the above Mission/Post is addressed "C/o Diplomatic Bag Section, Ministry of External Affairs, South Block, New Delhi".

R. GAURAV SHRESTH, Dy. Secy.

OFFICE OF THE DEPUTY CHIEF OF PROTOCOL (F)

New Delhi, the 25th June 2009

No. D-III/460/CF-53/08—The President of India is pleased to recognise the appointment of Ms. Nayantara Palchoudhury as Honorary Consul of Norway in Kolkata with immediate effect.

The consular jurisdiction of Ms. Nayantara Palchoudhury comprises the States of West Bengal, Orissa, Jharkhand and Bihar.

H. R. SINGH, Dy. Chief
of Protocol (F)

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd June 2009

No. A-12011/1/2009-Admn.II.—The President is pleased to appoint Shri M.P. Kotnala, Steno Grade "C" of CSSS of the Ministry of Environment & Forest as Assistant Private Secretary to Minister of State for Finance (Expenditure, and Financial Services) (Shri Namo Narain Meena) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- (Grade Pay) with effect from the forenoon of 01 June, 2009.

2. The appointment of Shri M.P. Kotnala with be on co-terminus basis with the tenure of Shri Namo Narain Meena, Minister of State for Finance (Expenditure, & Financial Services) unless otherwise terminated earlier.

V. RAMKUMAR, Under Secy.

DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

New Delhi, the 24th June 2009

No. A-19011/237/2004-Estt.—The President is pleased to extend the Central deputation tenure of Shri Amitabh Verma, IAS (BH: 82), Joint Secretary, Department of Financial Services, Ministry of Finance for a further period of three months beyond 18.06.2009 i.e. upto 18.09.2009.

RAMAN KUMAR GAUR, Under Secy.

DEPARTMENT OF EXPENDITURE

New Delhi, the 25th June 2009

No. A-12026/3/2009-Ad.I.—On the basis of results of the Combined Limited Departmental Examination, 2005, the President is pleased to appoint the Shri Pankaj Saurabh, Assistant of the Department of Telecommunications as Section Officer of the Central Secretariat Service in the Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band, PB-3 [Rs. 9,300—34,800/- + Rs. 4,800/- (Grade Pay)/Rs. 15,600—39,100/- + Rs. 5,400/- (Grade Pay)] with effect from the forenoon of the 16th June, 2009 and until further orders.

2. The appointment of Shri Pankaj Saurabh to the Section Officers' Grade is subject to the outcome of W.P. (C)

No. 13245-60/2005 (Shri Kailash Chander Vs. Union of India) pending in the Hon'ble High Court of Delhi and O.A. No. 1083/2007 & M.A. No. 1171/2007 (Shri Sauranshu Sinha Vs. Union of India) pending in the Hon'ble Central Administrative Tribunal, Delhi. His seniority in the Section Officers' Grade shall be subject to the final outcome of the Writ Petition(C) No. 4876/2007 (Central Secretariat Stenographers' Association Vs. The Central Secretariat Service Direct Recruit Assistants' Association).

MEETALI GHOSH, Under Secy.

New Delhi, the 19th June 2009

No. PF.16(495)/CAB/2009—Consequent upon attaining the age of superannuation, Sh. R.R.S. Rawat, Private Secretary of the CSSS cadre of Ministry of Finance, Department of Expenditure in the Pay Band-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay-Rs. 4,800/- stands retired from Government service with effect from the afternoon of the 30 June, 2009.

M. K. SAHOO, Dy. Dir. (Cost)

MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS

New Delhi, the 16th June 2009

No. A-12011/11/2006-Estt.—In terms of Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/2/2009-CS.II dated 16th March, 2009, the President is pleased to appoint Shri Sanjeev Kumar, Stenographer Grade 'C' of CSSS cadre of Ministry of Petroleum & Natural Gas, as Stanographer Grade 'A&B' (merged) of CSSS cadre in the Ministry of Petroleum & Natural Gas on the basis of Limited Departmental Competitive Examination-2005 in the pay scale of Rs. 9,300-34,800 (PB) + Rs. 4,800 (GP) with effect from the forenoon of 11.06.2009.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

No. A-12011/3/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri K.S. Sitaraman, Assistant in the cadre of Ministry of Railways, as Additional Private Secretary in the Pay Band of Rs. 15,600-39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- in the office of Minister (P&NG) (Shri Murli Deora) on co-terminus basis with effect from 29.05.2009.

ARUNODAY GOSWAMI, Under Secy.

MINISTRY OF CHEMICAL & FERTILIZERS

(DEPARTMENT OF FERTILIZERS)

New Delhi, the 15th June 2009

No. A-12011/3/2009-HR-II—The Competent Authority is pleased to appoint Shri Pradeep Yadav, IAS (TN: 1992), Director in the Ministry of Home Affairs, as Private Secretary to the Minister of Chemicals & Fertilizers (Shri M.K. Alagiri) at the level of Director for a period of 5(Five) years with

effect from June 09, 2009 (F.N.) or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders whichever is the earliest. He counts his tenure at the Centre with effect from 10.03.2008.

S.K. SINHA, Dy. Secy.

MINISTRY OF COAL

New Delhi, the 22nd June 2009

No.A-23021/1/2001-Admn.—Consequent upon his qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005, held by Union Public Service Commission and in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/2/2009-CS.I dated the 5th June, 2009, the President is pleased to appoint Shri Deepak Gupta, a substantive Assistant of UPSC as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Coal on regular basis, in PB-2 Rs. 9,300-34,800 + 4,800/- with effect from the 17th June, 2009 (FN) against Select List (Examination Quota) of 2005 of Section Officers' Grade.

H. C. AGRAWAL, Director

No. A-23021/1/2001-Admn.—Consequent upon his qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005, held by Union Public Service Commission and in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/2/2009-CS.I dated the 5th June, 2009, the President is pleased to appoint Shri Ram Naresh, a substantive Assistant of Ministry of Social Justice and Empowerment as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Coal on regular basis, in PB-2-Rs. 9,300—34,800/- + 4,800/- with effect from the 11th June, 2009 (FN) against Select List (Examination Quota) of 2005 of Section Officer's Grade.

H. C. AGRAWAL, Director

No. A-23021/1/2001-Admn.—Consequent upon his qualifying the Combined Limited Departmental Competitive Examination, 2005, held by Union Public Service Commission and in pursuance of Department of Personnel and Training's O.M. No. 6/2/2009-CS.I dated the 5th June, 2009, the President is pleased to appoint Shri Shanbhu Kumar, a substantive Assistant of Ministry of Finance as Section Officer in the CSS cadre of Ministry of Coal on regular basis, in PB-2-Rs. 9,300—34,800 + 4,800/- with effect from the 18th June, 2009 (AN) against Select List (Examination Quota) of 2005 of Section Officer's Grade.

H. C. AGRAWAL, Director

MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

New Delhi, the 29th May 2009

No. A-18011/(91)/2007-Estt.—The President is pleased

to retire Shri Abhijeet Ganguly, Deputy Secretary of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises from Government service on his attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st May, 2009.

P. S. VERMA, Under Secy.

No. A-18011/(88)/2007-Estt.—The President is pleased to retire Shri Maman Singh, Section Officer of the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises from Government service on his attaining the age of superannuation, with effect from the afternoon of 31st May, 2009.

P. S. VERMA, Under Secy.

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD & PUBLIC DISTRIBUTION

(DEPARTMENT OF CONSUMER AFFAIRS)

New Delhi, the 22nd June 2009

No. A-12011/5/2009-Estt.—The President is pleased to appoint Shri Satish Dnyandeo Raut, Deputy Collector, Government of Maharashtra as Additional Private Secretary to Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Shri Sharad Pawar) in the Pay Band of Rs. 15,600—39,100 (PB-3) with a Grade Pay of Rs. 6,600/- (Group "A" Gazetted) with effect from the forenoon of 17th June, 2009 on co-terminus (deputation) basis with the tenure of Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution or until further orders, whichever is earlier.

PREMA BHATT, Under Secy.

The 25th June 2009

No. A-12011/2/2008-Estt.—In pursuance of DOP&T's O.M. No. 9/5/2008-EO(MM-I) dated 26th May, 2009, the President is pleased to re-designate the post of Deputy Secretary held by Shri Brij Mohan, IA & AS(95), as Director in the Department of Consumer Affairs in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) plus Grade Pay of Rs. 8,700/- with effect from 01.07.2009, as a measure personal to him for the balance period of his tenure, which would now be up to 05.08.2013 or until further orders, whichever is earlier. He counts his tenure at the Centre w.e.f. 06.08.2008.

PREMA BHATT, Under Secy.

MINISTRY OF EARTH SCIENCES

New Delhi-110003, the 19th June 2009

No. MoES/31/3/2007-Estt.—The Competent Authority in the Ministry of Earth Sciences is pleased to promote S/Shri Ashim Kumar Mazumdar and S. K. Choudhary, Junior Technical Assistants to the post of Junior Analyst on ad-hoc basis in PB-2 Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay

of Rs. 4,600/- in the Ministry of Earth Sciences w.e.f. 24.04.2009 to 23.10.2009 or until further orders whichever is earlier.

2. The ad-hoc appointment will not confer any right for regularization of the same for the benefits such as seniority etc. on a future date. The Ministry reserves the right to terminate the ad-hoc appointment without assigning any reasons or giving notices etc. to the officers concerned.

SANDESH SAXENA, Under Secy.

MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

New Delhi-110003, the 20th May 2009

No. 19011/01/2008-IFS-I.—Shri P. R. Mohanty, an Indian Forest Service Officer of 1972 Year of Allotment borne on Orissa Cadre of IFS, presently working as the Director General of Forests and Special Secretary to the Government of India in the Ministry of Environment and Forests on deputation under the Central Staffing Scheme of the Ministry of Environment and Forests, is going to retire on superannuation w.e.f. the afternoon of 31st May, 2009.

A. K. LAL, Director

New Delhi-110003, the 16th February 2009

No. 22012/74/2005-IFS.II.—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1) of Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules, 1966, read with sub-regulation (1) of Regulation 9 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, the President is pleased to appoint Shri Rajiv Asthana (Date of Birth : 03.07.1955), a State Forest Service Officer of Uttar Pradesh to the Indian Forest Service and include his name at Sl. No. 16A in the Select List for the year 1990 below the name of Shri S. K. Singh (Sl. No. 16) and above the name of Shri K. S. Samant (S. No. 17) and to allocate him to Uttar Pradesh Cadre of Indian Forest Service under sub-rule (1) of Rule 5 of the Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966.

2. This issues in pursuance of Review Selection Committee held on 19.06.2008 in compliance with directions of Hon'ble CAT Principal Bench, New Delhi in O.A. No. 2616/2005 filed by Shri Rajiv Asthana Vs. UOI & others.

JOSEPH LUKHAM, Under Secy.

The 20th March 2009

No. 17013/13/2008-IFS.II.—In exercise of the provisions contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forest Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for promotion from the State Forest Service of Madhya Pradesh to the Indian Forest Service for the year 2008 was held on 15th December, 2008. The Union Public Service Commission has approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of following officers

of the State Forest Service of Madhya Pradesh towards filling up of promotion quota vacancies available in Madhya Pradesh cadre of the Indian Forest Service :—

Select List 2008

Sl. No.	Name (S/Shri)	Date of Birth
1.	Dr. R.B.S. Kushwaha	09.06.1956
2*	Chandra Mauli Pandey	01.07.1963
3.	Dhurandhar Singh Kanesh (ST)	04.06.1960
4.	Ashok Kumar Bansal	15.12.1962

*The name at Sl. No. 2 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary and criminal proceedings pending against him and grant of Integrity Certificate by the State Government.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 6th May 2009

No. 17013/22/2007-IFS-II.—In partial modification of this Ministry's Notification of even number dated 6th January, 2009, the following line of para 2 (last two lines) "and is subject to the decision of Hon'ble Supreme Court in SLP No. 21416/2007" may be read as under :—

SLP(C) No. 21416/2007 filed by the UPSC Vs. A. K. Salim was disposed of by the Hon'ble Supreme Court vide judgement dated 16-05-2008 and the SCM was held in pursuance of their orders in the said SLP.

2. All other matter remains the same.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 13th May 2009

No. 18012/01/2008-IFS-II.—In exercise of the powers conferred by the Rules 3(3) & 4 of the IFS (Probations) Rules, 1968, the Central Government hereby confirm the following IFS Officers borne on Cadre of the Maharashtra in the Indian Forest Service, with effect from the dates shown against each :—

S. No.	Name of the Officer	Date of Appointment in the IFS	Date of Confirmation
	(S/Shri)		
1.	B. T. Wankhede	29-07-2005	29-07-2006
2.	V. S. Shelke	29-07-2005	29-07-2006
3.	R. S. Kadam	29-07-2005	29-07-2006
4.	D. D. Gujela	29-07-2005	29-07-2006
5.	M. M. Kulkarni	29-07-2005	29-07-2006
6.	P. G. Rahurkar	29-07-2005	29-07-2006
7.	L. G. Panchal	29-07-2005	29-07-2006

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

The 15 June 2009

No. 17013/29/2008-IFS-II.—In exercise of the provision contained in Sub-Regulation 3 of Regulation 7 of the Indian Forests Service (Appointment by Promotion) Regulations, 1966, a meeting of the Selection Committee for preparation of Select List for promotion from the State Forest Service of Maharashtra to the India Forest Service for the year 2008 was held on 30th December, 2008. The Union Public Service Commission has approved the Select List prepared in the said meeting containing the name of the following officers of the State Forest Service of Maharashtra towards filling up of promotion quota vacancies available in Maharashtra cadre of the India Forests Service :—

Select List 2008

Sl. No.	Name	Date of Birth
1.*	Shri V. B. Thakre	26-05-1960
2.	Shri C. M. Dharankar	06-08-1958
3.	Shri A. S. Kalaskar	07-01-1961

*The name at Sl. No. 1 has been included in the list provisionally subject to clearance in the disciplinary proceedings and grant of Integrity Certificate by the State Government.

JOSEPH LUIKHAM, Under Secy.

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi-110108, the 22nd June 2009

No. A-12025/75/2006-CHS-I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Jaideep Dey to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 17-10-2008 until further orders. Dr. Jaideep Dey is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Jaideep Dey shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

The 24th June 2009

No. A-12025/94/2007-CHS-I.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Dr. Anil Kumar Kandpal to the Medical Officers Grade of the Central Health Service in the scale of pay of PB-3 (Rs. 15,600—39,100/-) + Rs. 5,400/- (Grade pay) in a temporary capacity with effect from the forenoon of 19-09-2008 until further orders. Dr. Anil Kumar Kandpal is posted as Medical Officer under Central Government Health Scheme, Delhi. Dr. Anil Kumar Kandpal shall be on probation for two years from the date of appointment.

MAYA PRAKASH, Under Secy.

DEPARTMENT OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi-110011, the 26th May 2009

No. A-22014/1/2008-Estt.-III.—In pursuance of the Ministry of Statistics and Programme Implementation Order No. 12016/2/2009-SSS dated 23-04-2009, Shri M. S. Chahar, Statistical Investigator's Grade-II of the Subordinate Statistical Service working in this Department has assumed the charge of the post of Statistical Investigator Grade-I in the revised Pay Band-2 of Rs. 9,300—34,800/- with Grade Pay of Rs. 4,600/- p.m. on ad-hoc basis until further orders w.e.f. 23-04-09 (F.N.)

ANIL UNIYAL, Under Secy.

The 26th June 2009

No. A-12023/01/2008-Estt.-III.—The President is pleased to appoint Dr. Ranjan Vikas, a regular Evaluation Assistant in the Ministry of Health & Family Welfare to the post of Evaluation Officer in the Regional Office for Health & Family Welfare, Patna under this Ministry in Pay Band-2 with a grade pay of Rs. 4,200/- (pre-revised Rs. 6,500—10,500/-) on regular basis, w.e.f. forenoon of 12th June, 2008.

ANIL UNIYAL, Under Secy.

MINISTRY OF AGRICULTURE

(DEPARTMENT OF ANIMAL HUSBANDRY,
DAIRYING & FISHERIES)

New Delhi, the 19th June 2009

No. A-19011/11/2007-Admn.-I.—The President is pleased to appoint Shri B. N. Nanda, Director, D/o Animal Husbandry, Dairying and Fisheries as Economic Adviser in the Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries in the pay-scale of Rs. 37,400—67,000/- + 10,000/- (GP) w.e.f. the forenoon of 5th June, 2009 consequent upon his promotion to the Senior Administrative Grade of Indian Economic Service vide Department of Economic Affairs, Ministry of Finance order No. P-3/2009 (File No. 13016/2/2009-IES) dated 5th June, 2009.

P. L. MEENA, Under Secy.

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF LAND RESOURCES)

New Delhi-110011, the 12th June 2009

No. A-12036/2/2009-Admn.—The President of India is pleased to appoint Shri Debashis Bhowmick, Programme Officer, National Cooperative Development Corporation (NCDC), New Delhi as Additional Private Secretary to Minister of State for Rural Development (Shri Sishir Kumar Adhikari) w.e.f. afternoon of 5th June, 2009 on co-terminus basis or till he ceases to function as Additional Private Secretary to Minister or until further orders whichever event takes place earlier.

NAVIN CHANDRA, Under Secy.

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

New Delhi, the 10th June 2009

No. A-32014(1)/2009-E-III.—In pursuance of the Department of Personnel & Training's O.M. No. 5/2/2009-CS-II dated 16-03-2009, on the basis of Section Officer/Stenographers (Gr. B/Gr. I) Limited Departmental Competitive Examination, 2005 conducted by the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint the following Stenographers Grade 'C' belonging to CSSS cadre of the Ministry of Human Resource Development as Private Secretary in the same Cadre in the scale of Pay of PB-2 Rs. 9,300—34,800/- + Grade Pay Rs. 4,800/- on regular basis w.e.f. the date shown against their name :—

S. Name No.	Date of Joining
1. Ms. Monica Malhotra	27-03-2009
2. Sh. Hans Raj	25-03-2009
3. Sh. Manohar Lal	25-03-2009
4. Sh. Rakesh Gupta	25-03-2009
5. Sh. Sathianathan C. K.	25-03-2009
6. Sh. Tarun Pahwa	25-03-2009
7. Sh. Ashok Kumar Khurana	25-03-2009

ZILEY SINGH VICAL, Under Secy.

MINISTRY OF WOMEN & CHILD DEVELOPMENT

New Delhi, the 1st June 2009

No. 22-30/2006-Admn.—Consequent upon attaining the age of superannuation, the President is pleased to relieve Shri V. C. Tewari from the post of Member Secretary, National Commission for Protection of Child Rights with effect from 31.05.2009 (AN).

SHAKUNTALA JAIN, Under Secy.

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

New Delhi, the 1st June 2009

No. A-12026/01/2007-Estt.—The Competent Authority in the Ministry of Social Justice and Empowerment has repatriated Shri Ashok Kumar Chawla from the post of Assistant Editor held by him on deputation basis in the Ministry of Social Justice and Empowerment to his substantive post of Senior Translator of the Central Secretariat Official Language Services in the Ministry of Social Justice & Empowerment w.e.f. 01-06-2009 (F.N.).

VINOD KUMAR SHARMA, Under Secy.

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

New Delhi-110015, the 10th June 2009

No. 11036/9/2006-PC&V(i)—In partial modification of this Ministry's notification No. 11036/09/2006-PC&V (i) dated 11.12.2008, and in terms of Section 5(1) of the Right to Information Act, 2005, Shri G. Sajeevan is hereby designated as Central Public Information Officer in place of

Smt. G. Myathili, Director in respect of Statistics Division of this Ministry and the specific subject matters indicated against S. No. 4 of the above said notification.

2. Shri G. Sajeevan's official address & Telephone No. is :—

Room No. 281
August Kranti Bhawan,
Bikhaji Cama Place,
New Delhi-110066
Tel. No.26182813

3. The name of Smt. G. Myathili, Director since transferred from this Ministry, indicated against S.No. 4 of the above said notification may be treated as deleted.

B. B. SHARMA, Dy. Director (PC&V)

MINISTRY OF COMMUNICATIONS & INFORMATION TECHNOLOGY

(DEPARTMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY)

New Delhi-110003, the 19th June 2009

No. 3(6)/2009-P.I.—The President is pleased to appoint Altaf Khan, Deputy Director, Department of Information Technology, Ministry of Communications & Information Technology as Joint Director on in-situ/personal basis in this Department in the revised structure of pay of Pay Band-3 i.e. Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 7,600/- with effect from 15.06.2009 (forenoon).

GIRISH SAHAI, Jt Director

NATIONAL INFORMATICS CENTRE

New Delhi-110003, the 30th June 2009

No. PF/2631/NIC/2008/Adm-I—The President is pleased to accept the Voluntary Retirement of Smt. V.S. Sudhakumari, Emp. Code: 2631 from the post of Scientist "F", NIC-Karnataka State Unit, Bangalore from the forenoon of 31.03.2009 and she stands relieved of her duties from the same day.

R. M. NAIR, Dy. Director (Adm-I)

STANDARDISATION, TESTING & QUALITY CERTIFICATION DIRECTORATE

New Delhi-110003, the 18th June 2009

No. 16(4)/2008-PA(TA)—The President is pleased to appoint the following Scientist 'B' in the Pay Band-2 Rs. 9,300-34,800 + Grade pay Rs. 5400/- of this Directorate as Scientist 'C' in the Pay Band-3 Rs.15,600-39,100/- + Grade Pay Rs. 6,600/- with effect from 11.05.2009 (F.N.):—

1. Shri K.V.L. Umamahesh
2. Smt. T. Sobha Naidu
3. Shri Vinay Rajput

S. RAMAKRISHNAN, Dy. Director

MINISTRY OF RAILWAYS (RAILWAY BOARD)

New Delhi, the 18th June 2009

No. ERB-1/2009/14/14—The following Personal Assistants of Railway Board Secretariat Stenographers Service

(RBSSS) have been promoted as Private Secretaries of Railway Board Secretariat Stenographers Service (RBSSS) in the Pay Band-2 of Rs. 9,300-34,800 + Grade Pay Rs. 4,800/- (revised) on ad-hoc basis with effect from the date indicated against each:—

S.No.	Name	Date of Joining
	S/Shri/Ms.	
1.	Bharat Bhatnagar	04.06.2009 (FN)
2.	Rakesh Kumar Sidana	03.06.2009 (FN)
3.	B. Madanraj	08.06.2009 (FN)
4.	Amit Kumar	03.06.2009 (FN)
5.	Tulsi Ram	03.06.2009 (FN)
6.	Shobha Pasricha	03.06.2009 (FN)
7.	Prakasan A.V.	03.06.2009 (FN)
8.	Jyoti Bala Sareen	03.06.2009 (FN)
9.	Anju Anand	03.06.2009 (FN)
10.	R. Jaya Lamba	03.06.2009 (FN)
11.	Sushma Kalra	03.06.2009 (AN)
12.	Manmeet Kaur	03.06.2009 (FN)
13.	Amit Kumar Chaudhari	04.06.2009 (FN)

K. B .L. MITTAL, Secy., Railway Board

The 1st July 2009

No. E(GP)2004/1/49—The President is pleased to approve of the undermentioned Group 'B' Officer of Civil Engineering Department of Indian Railways, being appointed to the Junior Scale of Indian Railway Service of Engineers (IRSE) with effect from 12.06.2008 on the Railway mentioned.

PANEL FOR 2006-2007

Name of the Officer

North Western Railway

1. Shri M.M. Upadhyay

K. B. L. MITTAL, Secy./Railway Board

MINISTRY OF SHIPPING

New Delhi-110001, the 25th June 2009

No. A-12023/1/2009-Estt—The President is pleased to appoint Dr. Rajendra Kumar, IAS (TN : 1992) as Private Secretary to Minister of Shipping (Sh. G. K. Vasan) at the level of Director in the Pay Band of PB-4 Rs. 37,400—67,000 + Rs. 8,700 (Grade Pay) for a period of five years w.e.f. 11.06.2009 or till he ceases to function as Private Secretary to the Minister or until further orders, whichever event takes place earlier.

ASHWANI KUMAR, Dy. Secy.

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi, the 16th June 2009

No. A-12023/1/2009-E-I—The President is pleased to appoint Shri Damodaran Vijayan as Additional Private Secretary to the Hon'ble Minister (Road Transport & Highways) (Shri Kamal Nath) in Pay Band-3

Rs. 15,600—39,100/- with Grade Pay of Rs. 6,600/- on co-terminus basis w.e.f. 01.06.2009 (F.N.) till further orders or till the Hon'ble Minister desires his services whichever is earlier.

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

The 19th June 2009

No. A-12023/2/2009-E-I—The president is pleased to appoint Shri Tirthankar Das, Under Secretary in the Lok Sabha Secretariat as Additional Private Secretary to Hon'ble Minister of State for Road Transport & Highways (Shri R.P.N. Singh) in Pay Band-PB-3 Rs. 15,600—39,100/- plus Grade Pay Rs. 6,600 on deputation/co-terminus basis w.e.f. 15.06.2009 (F.N.) till further orders or till the Minister desires his services, whichever is earlier.

V. KRISHNASWAMY, Under Secy.

MINISTRY OF POWER

New Delhi, the 19th June 2009

No. 20/2009. F. No. 1/4/2009-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri Ramesh H. Swamy, Deputy Secretary, Maharashtra Legislature Secretariat as Additional Private Secretary in the personal staff of the Hon'ble Minister of Power (Shri Sushilkumar Shinde) in the scale of pay of Rs. 10,000-325-15,200/- (pre-revised) with effect from the forenoon of the 01st June, 2009. The appointment of Shri Swamy is temporary and co-terminus with the tenure of the Minister or so long as desired by him, whichever is earlier, until further orders.

MADHUKAR SOOD, Under Secy.

New Delhi, the 22nd June 2009

No. 21/09. F. No. 2/7/2008-Adm.II.—The President is pleased to appoint Shri Rajiv Kumar Gupta, IFS (UT : 1988), as Director in the Ministry of Power, in the Pay Band of Rs. 37,400—67,000/- (PB-4) with a Grade Pay of Rs. 8,700/-, with effect from the forenoon of the 22nd June, 2009 for a period of five years or until further orders, whichever event takes place earlier.

N. SRIRAMAN, Under Secy.

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 15th June 2009

No. 15/2009, F. No. 4/9/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Smt. Sharanjit, Assistant of the Central Secretariat Service cadre of Ministry of Water Resources as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources in the pre-revised scale of Rs. 6,500-200-10,500/- [Revised Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 + Rs. 5,400/- (GP)] on regular basis with effect from 19.03.2009 (FN) until further orders.

The appointment of the above person would be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs UOI pending in the High Court,

Delhi and Case No. OA1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 16/2009, F. No. 4/9/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Shri S.R.A. Khadri, Assistant of the Central Secretariat Service cadre of Ministry of Water Resources as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources in the pre-revised scale of Rs. 6,500-200-10,500/- [Revised Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 + Rs. 5,400/- (GP)] on regular basis with effect from 19.03.2009 (FN) until further orders.

The appointment of the above person would be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs UOI pending in the High Court, Delhi and Case No. OA1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs UOI pending in CAT, Delhi.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 17/2009, F. No. 4/9/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Sadhu Ram, Assistant of the Central Secretariat Service cadre of Ministry of Water Resources as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources in the pre-revised scale of Rs. 6,500-200-10,500/- [Revised Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 + Rs. 5,400/- (GP)] on regular basis with effect from 19.3.2009 (FN) until further orders.

The appointment of the above person would be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 18/2009, F. No. 4/9/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Shri Nagendra Kumar, Assistant of the Central Secretariat Service cadre of Ministry of Water Resources as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources in the pre-revised scale of Rs. 6,500-200-10,500/- [Revised Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 + Rs. 5,400/- (GP)] on regular basis with effect from 19.3.2009 (FN) until further orders.

The appointment of the above person would be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 19/2009, F. No. 4/6/2005-Admn.—The President is pleased to appoint Shri A. P. Verma, Assistant of the Central

Secretariat Service cadre of Ministry of Civil Aviation as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources in the pre-revised scale of Rs. 6,500-200-10,500/- [Revised Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 + Rs. 5,400/- (GP)] on regular basis with effect from 19.3.2009 (FN) until further orders.

The appointment of the above person would be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi.

N. K. GUPTA, Under Secy.

No. 20/2009, F. No. 4/9/2002-Admn.—The President is pleased to appoint Shri M. F. Ayyubi, Assistant of the Central Secretariat Service cadre of Ministry of Civil Aviation as Section Officer in the CSS Cadre of the Ministry of Water Resources in the pre-revised scale of Rs. 6,500-200-10,500/- [Revised Pay Band-3 Rs. 15,600—39,100 + Rs. 5,400/- (GP)] on regular basis with effect from 19.3.2009 (FN) until further orders.

The appointment of the above person would be subject to outcome of Court Case No. 13245-60/2005 filed by Shri Kailash Chander Vs UOI pending in High Court, Delhi and Case No. OA1083/2007 & MA No. 1171/2007 filed by Shri Sauranshu Sinha Vs. UOI pending in CAT, Delhi.

N. K. GUPTA, Under Secy.

New Delhi, the 30th June 2009

No. 21/2009, F. No. 25/3(31)/2008-E-I—On the results of the Engineering Services Examination, 2007, the President is pleased to appoint Shri Rakesh Kumar Gautam to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 26-05-2009 (FN).

2. Shri Rakesh Kumar Gautam will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

No. 22/2009, F. No. 25/3(25)/2008-E-I—On the results of the Engineering Services Examination, 2007, the President is pleased to appoint Shri Gaurav Sharma to officiate as Assistant Director/Assistant Executive Engineer (Civil & Mechanical) of the Central Water Engineering (Group-'A') Service in the PB-3 pay scale of Rs. 15,600—39,100/- with grade pay of Rs. 5,400/- in the Central Water Commission with effect from 26-05-2009 (FN).

2. Shri Gaurav Sharma will be on probation for a period of two years with effect from the date of joining, which may be extended, if considered necessary.

K. RAJAPPA, Under Secy.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 18th June 2009

No. 188/2009, F. No. 5/5/2007-Admn.-II—Consequent upon personal up-gradation of her post to SAG of Indian Economic Service, vide Department of Economic Affairs, Ministry of Finance's Order No. P-3/2009, dated 5th June, 2009 and her subsequent assumption of the charge of the post of Economic Adviser with effect from 05-06-2009, in this Ministry, the President is pleased to appoint Ms. Sunanda Sharma, I.E.S., as Economic Adviser, in the Ministry of Information & Broadcasting, in the Pay Band-4 Rs. 37,400—67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/- with effect from the forenoon of 05-06-2009, until further orders.

RAM PHAL, Under Secy.

The 19th June 2009

No. 198/2009, F. No. 3/2/2008-Admn.-II—Consequent upon their qualifying the Limited Departmental Competitive Examination-2005 and their subsequent nomination to the CSS cadre of this Ministry against Examination Quota vide DoP&T's O. M. No. 6/2/2009-CS-I dated 05-06-2009, the President is pleased to appoint the following regular Assistants of Central Secretariat Service as Section Officers of Central Secretariat Service on regular basis in Ministry of Information & Broadcasting with effect from the dates and in the offices, mentioned against their names :—

S. No.	Name	Date of appointment	Place of Posting
	(S/Shri)		
1.	S.P.R. Tripathi	12-06-2009 (F.N.)	MS (IIS)
2.	Deependra Singh	11-06-2009 (F.N.)	MS (Press)
3.	Rajesh Kumar	11-06-2009 (F.N.)	MS (BA-E)

RAM PHAL, Under Secy.

MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT

New Delhi, the 26th June 2009

No. A-12025/14/2001-ISH-II.—The President is pleased to appoint Shri Murli Dhar Mishra to the post of Deputy Director of Mines Safety (Mining) in the pre-revised pay scale of Rs. 12,000-375-16,500/- in the Directorate General of Mines Safety, Dhanbad with effect from 31.03.2009 (F/N) and until further orders.

SUBHASH CHAND, Under Secy.